

Sharda Motor Industries Ltd.

SMIL: LISTING: 24-25/0711/01 November 07, 2024

BSE Limited

Department of Corporate Services Pheroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai - 400 001

(SCRIP CODE - 535602)

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, 5th Floor

Plot No. C/1, G Block

Bandra - Kurla Complex, Mumbai - 400 051

(Symbol - SHARDAMOTR) (Series - EQ)

Subject: - Submission of Copy of Newspaper Advertisement Ref: Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015

Dear Sir/ Madam.

With reference to the captioned subject, please find enclosed herewith copies of the newspaper advertisement dated Wednesday, November 07, 2024 published in Financial Express (English Language) and Vir Arjun (Hindi Regional Language).

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Sharda Motor Industries Limited

Iti Goyal **Assistant Company Secretary** & Compliance Officer

Encl. as above

Regd. Office: D-188, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi - 110 020 (INDIA)

Tel.: 91-11-47334100, Fax: 91-11-26811676 E-mail: smil@shardamotor.com, Website: www.shardamotor.com

CIN NO-L74899DL1986PLC023202

FINANCIAL EXPRESS

🖎 Karnataka Bank Ltd. 🙉

Asset Recovery Management Branch 8-B, First Floor, Rajender Park, Pusa Road, New Delhi -110 060

Phone: 011-40591567(Ext-240) E-Mail: delhiarm@ktkbank.com Website: www.karnatakabank.com CIN: L85110KA1924PLC001128 SALE NOTICE OF IMMOVABLE PROPERTY

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 read with proviso to rule 9(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to public in general and in particular to Borrower (s) and Guarantor

(s) that the below described immovable property mortgaged /charged to the secured Creditors, the Symbolic Possession of which has been taken by the Authorised Officer of the Secured Creditors on 14.08.2024, will be sold on "As is Where is "," As is What is" and "Whatever there is" on 27,11,2024, for recovery of aggregate amount being Rs. 52,05,098.67 [Rupees Fifty Two Lakhs Five Thousand Ninety Eight and Sixty Seven Paise Only] i.e. (i) Rs. 13,37,372.28 under PS Overdraft Loan A/c No. 5497000600015501 along with future interest from 01.11.2024, (ii) Rs.3,44,815.80 under PS Term Loan A/c No. 5497001800020701 along with future interest from 10.10.2024, (iii) Rs. 22,88,075.03 under PS Term Loan A/c No. 5497001800022501 along with future interest from 28.10.2024, (iv) Rs.7,96,474.50 under PS Term Loan A/c No. 5497001800022601 along with future interest from 28.10.2024 (v) Rs. 4,38,361.06 under PS Term Loan A/c No. 5497001800022701 along with future interest from 28.10.2024, plus costs due to Karnataka Bank Ltd., New Delhi - Rohini Branch, Plot No.6, Aggarwal Central Plaza, First Floor, Community Centre, DC Chouk, Sector 9, Rohini, Delhi -110085, the secured creditor from (1) M/s Sahavi Hybrid Seeds (India) Pvt Ltd, represented by its directors (i) Shri Dayanand Tripathi, (ii) Shri Ramanuj Tripathi, (iii) Shri Praveen Tripathi, situated at: 144,Block-1, Pocket-3, Sector 16, Rohini, North-West, New Delhi - 110085, (2) Shri Dayanand Tripathi S/o Shri Hari Har Tripathi, (3) Shri Ramanuj Tripathi S/o Shri Dayanand Tripathi, (4) Shri Praveen Tripathi S/o Shri Dayanand Tripathi, (5) Smt. Asha Tripathi W/o Shri Dayanand Tripathi, All (2) to (5) addressed at: R/o 144, Block-1, Pocket-3, Sector 16, Rohini, North-West, New Delhi-110085, being borrowers/ guarantors/ co - obligants.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY:

All that part and parcel of Residential house property, measuring 48 sq. mts. (Covered Area), bearing House No.144, 1st Floor (Without Roof Rights), Block-I, Pocket-3, Sector-16, Rohini Residential Scheme, Rohini, New Delhi, Pin-110085, belonging to Mrs. Asha Tripathi, Boundaries: East: 30 ft wide road, West: 30 ft wide Service Lane, North: Entry to the floor 40 ft wide road, South; Plot No. 145

Reserve Price / Upset Price below which the immovable property may not be sold: Rs.51,51,000.00 (Rupees Fifty One Lakh Fifty One Thousand Only):

Earnest money to be deposited / tendered: Rs.5,15,100.00 (Rupees Five Lakh Fifteen Thousand One Hundred Only).

(The borrower's / mortgagor's attention is invited to the provisions of Sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset).

(This Notice shall also serve as Notice under Sub Rule (1) of Rule (9) of Security Interest Enforcement Rules-2002 to the Borrower/Guarantors)

For detailed terms and conditions of sale, please refer to link in Karnataka Bank's Website i.e. www.karnatakabank.com under the head "Mega E-Auction on 27.11.2024".

The E-auction will be conducted through portal https://bankauctions.in/ on 27.11.2024 from 11:30 am to 12:30 pm with unlimited extension of 05 minutes. The intending bidder is required to register their name at https://bankauctions.in/ and get the user ld and password free of cost and get online training on E-auction (tentatively on 26.11.2024) from M/s.4closure, Flat No.102, Plot No.20, Amrutha Apartments, Mothinagar, Hyderabad-500018 contact No.040-23836405.mobile 8142000062, E-mail: info@bankauctions.in. Sd/- For Karnataka Bank Ltd Date: 05.11.2024 Chief Manager & Authorised Officer Place : Delhi

CANBANK FACTORS LTD.

(A Subsidairy of Canara Bank) Registered Office: #67/1, Kanakapura Main Road, Basavanagudi, Bangalore-560004

Branch Office: No 1, DDA Building, 1st Floor, Near Paras Cinema, Nehru Place, New Delhi-110019 Phone: 011 - 40113698/26287129, CIN NO. U85110KA1991PLC011960 E-mail: canfact.del@canbankfactors.com Website: www.canbankfactors.com

Date: 18/09/2024

Mr. Suresh Kumar Sharma, G-445, Raj Nagar, Part-II, Palam Colony, New Delhi-110045 Also at: F-712, Lado Sarai, New Delhi, 110030 Also at: NH-8, Kasola Chowk, Rewari Road, Rewari, Haryana -123401

Subject: Invocation of Guarantee and Demand Notice in respect of unpaid debt in default due from M/s Nihon Sales Pvt. Ltd.

1. M/s Nihon Sales Pvt. Ltd. hereinafter referred to as the "borrower" has availed the following credit facility/les from us on the terms and conditions as detailed in the sanction advice as provided below:

The second second	TOUR ASSESSMENT	Nature Of Credit Facility / Facilities	Amount / Limit Sanctioned	Date of Sanction
	1.	Sale Bill Discounting	Rs 675.00 Lacs	26/06/2018

In consideration of the above loan/credit facility/les sanctioned in favour of the Borrower and renewed from time to time, you have executed several documents in favour of the Bank and furthermore to secure repayment of the said loan/credit facility/ies, you have executed various documents, details of which are provided hereunder:

SI. No.	Description of Document	Date of Execution
1.	Sanction Letter (Principal)	27.09.2010
2.	Letter of Renewal of Credit Facilities	17.12.2011, 28.03.2013, 20.01.2015, 03.08.2015, 24.10.2016, 11.07.2018
3.	Factoring cum Prepayment Agreement (Domestic – Sale Bill / Invoice)	28.09.2010
4.	Supplemental Factoring Cum Prepayment Agreement	05.03.2011, 28.03.2013, 12.04.2018
5.	Letter of Guarantee	28.09.2010 and 28.03.2013
6.	Letter of Renewal of Guarantee	17.12.2011, 20.01.2015, 03.08.2015, 24.10.2016, 11.07.2018
7.	Power of Attorney	28.09.2010
8.	Acknowledgement of Debt and Security	05.03.2011, 17.12.2011, 28.03.2013, 20.01.2015, 03.08.2015, 24.10.2016, 11.07.2018, 20/09/2021.

3. The Borrower has failed to comply with the terms and conditions of the loan and defaulted in repayment of the principal dues and/or failed to serve interest on the said account on time resulting in the classification of the account of the Borrower as a Non-Performing Asset on 20.10.2018. As on 31/08/2024, the Borrower has defaulted in repayment of a total sum of Rs. 132301088.73 along with future interest to be accrued thereon, expenses and costs.

4. By this notice, the Letter/s of Guarantee/s as furnished by you on 28.09.2010 and 28.03.2013 (which have been renewed by you from time to time as referred in the table hereinabove), guaranteeing to pay and satisfy on demand the outstanding balance due against the Borrower, is hereby invoked and you are called upon to discharge/pay the amount of 132301088.73 under default as on date alongwith future interest to be accrued thereon, costs and expenses, to us within 7 (Seven) days from the date of this notice, failing which the bank shall be constrained to take necessary legal steps.

5. The instant notice is being issued without prejudice to any other rights available to the

Sandeep Sharma Branch Head Canbank Factors Ltd New Delhi Branch

Date of Registration | EMD Amoun

02.12.2021

CORRIGENDUM TO FIRST SALE NOTICE DATED 28/10/2024 POPULAR SPIRITS LLP (UNDER CIRP) Reg. Off: S-363, First Floor, Greater Kailash Part-II, South Delhi, New Delhi-110048

1ST AUCTION SALE NOTICE

The following Assets and Properties of Popular Spirits LLP (Under CIRP) having LLPIN: AAL 3211 auction on "AS IS WHERE IS, AS IS WHAT IS, WHATEVER THERE IS AND NO RECOURSE BASIS "as per details mentioned in the table given below. The sale will be don through the private auction

2.	Mahindra Bolero (DL	.1CAE9572) 0	2.12.2021	50,000		
3.		ssets (including Air conditioner, ceiling fan, e & fitting, computer, refrigerators etc.)				
	5,4	AUCTION TIMELINE		//		
Particulars Date for Inspection		Auction timeline for other assets as mentioned in serial no. 3	Auction timeline for vehicles as mentioned in serial no. 1 and 2			
		12.11.2024	12.11.2024			
	date for submission of amount	13.11.2024	13.11,2024			

1) Details of the assets mentioned in serial no. 3 as other assets are with the IRP an prospective buyers can contact undersigned for the details

14.11.2024

EMD can be deposited through demand draft.

Mahindra Bolero (DL1CAE9569)

Prospective bidders shall submit the EOI (Quotation) along with the EMD amount in the form of demand draft at the address of IRP i.e. (Plot No. WZ-D-9, Gali No. 5, Mahavii Enclave, Palam Colony, Near Sulabh International Complex, New Delhi-110045) 4) Interested applicants may refer to the Complete Auction Process information by

contacting the undersigned. The Interim Resolution Professional has right to accept or cancel or extend or modify, etc. any terms and conditions of Auction at any time. He has right to reject any of the bid without giving any reasons. He has right to cancel Auction at any time. For technical assistance, contact undersigned.

Date: 06.11.2024 Place: Delhi

Date of sale

S. No. Asset Description

Pankaj Kumar Tiwar IP Regd No.: IBBI/IPA-003/ICAI-N-00394/2022-2023/1427

AFA No. AA3/14278/02/300625/301108 valid up to 30 Jun 202 Deemed Resolution Professional In the CIRP of Popular Spirits LLF Address: Plot No. WZ-D-9, Gali No.5, Mahavir Enclave Palam Colony, Near Sulabh International Complex New Delhi -110045 Email: ippankaitiwari@gmail.com /+91 8826432340

OARYAVART BANK

Regional Office, Aligarh Corrigendum

With reference to the E- Auction Sale Notice published in newspaper on Dt. 15.07.2022, Sale of Property of Borrower: M/s Medical Business House, Prop.- Saurabh Bansal (Branch: Aligarh Main) only has been cancelled

due to some unavoidable reason. Rest

will remain unchanged. **Authorised Officer**

SHARDA MOTOR INDUSTRIES LIMITED CIN: L74899DL1986PLC023202 REGD. OFFICE: D-188, OKHLA INDUSTRIAL AREA, PHASE-I, NEW DELHI-110020

Tel.: +91-11-47334100 E-Mail: investorrelations@shardamotor.com, Website: www.shardamotor.com NOTICE

Pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable provisions, if any, Notice is hereby given that next Board Meeting of the Company is scheduled to be held on Tuesday, 12th November, 2024, inter-alia; to consider and approve the Un-audited Financial Results of the Company for the Second Quarter and Half Year ended 30th September, 2024.

The said notice is also available on the Company's website www.shardamotor.com and may also be accessed on the website of the stock exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com.

For Sharda Motor Industries Limited

Date: 05th November, 2024 Place: New Delhi

Nitin Vishnoi Executive Director & Company Secretary

ITC LIMITED

Registered Office: Virginia House, 37, Jawaharlal Nehru Road, Kolkata, West Bengal, 700071. NOTICE is hereby given that the certificate[s] for the undermentioned securities of

the Company has/have been lost/misplaced and the holder[s] of the said securities applicant[s] has/have applied to the Company to issue duplicate certificate[s] for 10800 Shares. Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the Company at its Registered Office within 15 days from this date, else the Company will proceed to issue duplicate certificate[s] without further intimation.

Folio / Account no.		Certificate Nos.		No. of Shares	
13/25351	ANURADHA	32806	56186291 - 56188690	2400	Rs.1/-
	MUBAYI joint with Late GIRIJA		2531522296 - 2531523495 3881500441 - 3881504040	1200 3600	
	MOHAMMED MIYAN	248373	8088585488 - 8088589087	3600	2
Date: 04/11/2 Place: DELHI				of the C	

ANURADHA MUBAYI

NOTICE OF LOSS OF SHARES OF

(Formerly Hindustan Lever Limited) Regd. Off. Hindustan Unilever Limited,

Unilever House, B D Savant Marg, Chakala, Andheri (East) Mumbai-400099 Notice is hereby given that the following share certificates have been reported as lost/misplaced and the Company intends to issue duplicate certificates in lieu thereof, in due course,

Any person who has a valid claim on the said shares should lodge such claim with the Company at its Registered Office within 15 days hereof. Name of Folio No. No. of Certificate No.(s) Distinctive No.(s) the holder shares

		(Rs.1/-f.v)		
VIJAY BHUSHAN GARG	HLL 2250847	250	5130378	858562911 - 858563160
Place: New Date: 28.10.		171		All:

IN THE COURT OF THE DISTRICT **MUNSIF, OTTAPIDARAM** . Subbulakshmi 3. Ramalakshmi ... Petitioners / Plaintiffs

Gurjant Singh S/o. Sohan Singh Khabra Village, Singhbhagwantpur Post, Ropar Taluk & District, State of Punjab. ... 2nd Respondents / 2nd Defenden

Whereas the above named Petitioners

Plaintiffs have filed the suit against you the above said court for declarătion of plain schedule property and for the cancellation of sale deeds, numbers 415/2004, 260/200 1342/2009 and one application filed for section of limitation Act to restore the suit which was ismissed as default on 18.09.2017. So you are here by directed to appea before the above said court in person or by ar Advocate duly Instructed on **27.11.2024** at 10 'c

Clock in the forenoon to show cause against th said suit. If you fail to appear the above said su will be heard and determined exparty. . by court order A. Gnana Nirmals, B.A., B.L. Advocate

Thoothukudi, Tamilnadu (Cell: 9843309407)

FORM WIN-43 [See Rule 100] BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT PRINCIPAL IN THE MATTER OF GLOW **INFOCOM PRIVATE LIMITED** (Company incorporated under Companies Act, 1956) Petition bearing No. C.P. 73/271-273/

PB/2022

Advertisement of notice to creditors to prove their claim Notice is hereby given to the creditors of the above-named company that they are required to submit to the Company Liquidator proofs of their respective debts or claims against the above-named company by delivering at the office of the Company Liquidator on or before the 20th day of November 2024, or sending by post to the Company Liquidator so as to reach him not later than the said date, an affidavit proving the debt or claim in FORM WIN-44 with their respective names, addresses and particulars of debt or claim, and any title to priority under section 326/327. Any creditor who fails to submit his

before his debt is proved, or, as the case may be, from objecting to such distribution. Any creditor who has sent in his proof f so required by notice in writing from the Company Liquidator, shall either in person or by his representative. attend the investigation of such debt or claim at such time and place as shall be specified in such notice and shall produce such further evidence of

affidavit of proof within the time limited

as aforesaid will be excluded from the

benefit of any distribution of dividend

his debt or claim as may be required. Dated this 5th day of November 2024 (AVINASH KUMAR) COMPANY LIQUIDATOR ADD.: A-338 LGF, DEFENCE **COLONY, NEW DELHI - 110024** Email: windingup.gipl@gmail.com

ABM INTERNATIONAL LIMITED CIN: L51909DL1983PLC015585

Read, Office: 37 DLF Industrial Area, Kirti Nagar, New Delhi - 110 015 Phone: 011-41426065, Website: www.abmintLin. E-mait vigandhi@abmint.in NOTICE OF BOARD MEETING

NOTICE is hereby given that according to Regulations 29 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, 11" November, 2024 at 37-DLF, Industrial Area, Kirli Nasar, New Delhi 110015, inter alia, to consider and approve the Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results of the company for the quarte and half year ended 30" September 2024.

The said notice may be accessed on the Company's website a http://www.abmintl.in and may also be accessed on the Stock Exchange Website at http://www.nseindia.com.

Further, the Trading window of the Company according to the SESI (Prohibition of Insider Trading) Regulation, 2015 read with the Code of Conduct to regulate, monitor, and report trading by designated persons of the Company has been closed for trading of the Company's Equity Shares from 1st October 2024 and would remain closed until 48 hours after the announcement of Unaudited Financial Results of the Company to Public. For ABM INTERNATIONAL LIMITED

(RAJNEESH GANDHI) Place: New Delhi MANAGING DIRECTOR

CORRIGENDUM

This is refers to the Public Notice released in Financial Express English Newspaper on 20th Sep 2024 pertaining to Amar Eros Hospitality LLP Therein please note that "State of Delhi" is to be read as "NCT of Delhi." wherever

The rest of the contents of the said notice remain the same

For Amar Eros Hospitality LLP Sarabpal Singh Bami Designated Partner (08045392) Address: E-7/18, Vasant Vihar, New Delhi-110057

खोया-पाया

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि उपनिबन्धन बुलंदशहर में दर्ज मुल बैनामा दिस्तावेज नं. 1931 दिनांक 29 / 05 / 2002 व मूल बैनामा दस्तावेज नं. 3278 दिनांक 31 / 07 / 2004 जो यति कुमार गुप्ता और हेमलता गुप्ता के पक्ष में निष्पादित है। मुझ से यात्रा करते समय कहीं गिर गए हैं। जिसका मुझे कोई ज्ञान नहीं है। सम्पत्ति के मूल दस्तावेजों कोई गलत प्रयोग न कर ले। अतः अनुरोध है कि जिस किसी भी व्यक्ति को मिले. अधोहस्ताक्षरी से सम्पर्क कर लौटाने की

हस्ता./-श्री यति कुमार गुप्ता पुत्र श्री गंगा रसाद गुप्ता एवं **श्रीमती हेमलता गुप्ता** पत्नी श्री यति कमार गप्ता, निवासी सिविल लाइन्स, बुलन्दशहर, य.पी. मो. 9266673206

🕸 Karnataka Bank Ltd.

Phone : 011-40591567(Ext-240) Asset Recovery Management Branch 8-B, First Floor, Rajender Park. : delhiarm@ktkbank.com

Website: www.karnatakabank.com Pusa Road, New Delhi-110 060 : L85110KA1924PLC001128 CIN SALE NOTICE OF IMMOVABLE PROPERTY E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002

read with proviso to rule 9(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to public in general and in particular to Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the secured Creditor, the Symbolic Possession of which has been taken by the Authorised Officer of Karnataka Bank Ltd. the Secured Creditor on 15.06,2020, will be sold on "As is Where is", "As is What is" and "Whatever there is" on 27.11.2024, for recovery of Rs.4,03,86,475.70 (Rupees Four Crore Three Lakhs Eighty Six Thousand Four Hundred Seventy Five and Paisa Seventy Only) i.e. (1) 3,03,30,632.70 under PS Overdraft Account No. 5617000600001201 along with future interest from 01.02.2021 (2) Rs. 64,62,965.00 Under Pre-Shipment Account No. SLGEN54200173048 along with future interest from 26.01.2019, plus cost, (3) Rs. 35,92,878.00 Under Pre-Shipmen

Account No. SLGEN54200173281 along with future interest from 26.01.2019, plus cost, due to the Karnataka Bank Ltd, Ashok Vihar Branch-Delhi, A-1Ashok Vihar, Phase II New Delhi -110052, the Secured creditor from (1) Pavo Industries Ltd Rep By its Director, (i) Mr. Sajjan Kumar S/o Mr Ronal Ram, (ii) Mrs. Sunita Garg W/o Mr. Sajjan Kumar, (iii) Mrs Sangeeta Bansal W/o Mr. Ramesh Bansal, Addressed at: E-120, Chanakya Place, Part-I, New Delhi-110059, (2) Mr. Sajjan Kumar S/o Mr Ronal Ram, 3) Mrs. Sunita Garg W/o Mr. Sajjan Kumar, Both (2) & (3) residing at: K-28, Chanakya Place, Part-2 New Delhi-110059, (4) Mrs Sangeeta Bansal W/o Mr. Ramesh Bansal, Residing at: J-90 B, Arya Samai Road Uttam Nagar, New Delhi-110059, being borrowers/

guarantors/co-obligants. DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY: 1. All that part and parcel of Residential Property Bearing No.K-28, Land measuring 125

sq. vds in Khasra No.674 & 675, situated at Bindur Village; Chanakya Place; Part-II, New Delhi belonging to Mr. Sajjan Kumar. Boundaries: East: Part of Property No. K-28 West: Road 25ft wide North: Road 25ft wide South: Property No. K-27 Reserve Price / Upset Price below which the property may not be sold

Rs. 1,45,00,000.00 (Rupees One Crore Forty Five Lakhs only) Earnest money to be deposited/tendered: Rs.14,50,000.00 (Rupees Fourteen Lakhs Fifty Thousand Only) All that Part and Parcel of residential property Bearing No. E-120, Area Measuring 100

sq.yds (approx) Out of Khasra No.659, With roof eight situated at Bindaur Village, Chanakya Place, Part-1, Block E, New Delhi, Belonging to Mrs Sunita Garg. Boundaries: East: Other,s Property West: Portion of Plot North: 10ft. Wide Lane South

Reserve Price / Upset Price below which the property may not be sold Rs. 1, 13.00,000.00 (Rupees One Crore Thirteen Lakhs Only) Earnest Money to be deposited/ tendered: Rs.11,30,000.00 (Rupees Eleven Lakhs

Thirty Thousand Only) (The borrower's/mortgagor's attention is invited to the provisions of Sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset).

(This Notice shall also serve as Notice under Sub Rule (1) of Rule (9) of Security Interest Enforcement Rules-2002 to the Borrower/Guarantors) For detailed terms and conditions of sale, please refer to link in Karnataka Bank's Website i.e. www.karnatakabank.com under the head "Mega E-Auction on 27.11.2024". The E-auction will be conducted through portal https://bankauctions.in/on 27.11.2024 from

11:30 A.Mto 12:30 P.M with unlimited extension of 05 minutes. The intending bidder is required to register their name at https://bankauctions.in/ and get the user Id and password free of cost and get online training on E-auction (tentatively on 26.11.2024) from M/s. 4closure, 605A, 6th Floor, Maitrivanam, Ameerpet, Hyderabad-500038, contact No. 040-23836405, mobile 8142000809, E-mail: info@bankauctions.in. Date: 05.11.2024 Sd/- For Karnataka Bank Ltd

Place: New Delhi Chief Manager & Authorised Officer.

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.



CHEMPLAST SANMAR LIMITED

Regd.Office: 9, Cathedral Road, Chennai - 600 086 Tel: 91 44 2812 8500

Website: www.chemplastsanmar.com E-mail id: grd@sanmargroup.com CIN: L24230TN1985PLC011637

Extract of consolidated and standalone unaudited financial results for the quarter and half year ended 30th September 2024

(Rs. in Crores except for EPS data)

		Consolidated				Standalone			
SI. No.	Particulars	Quarter ended		Half Year ended		Quarter ended		Half Year ended	
		30-09-2024	30-09-2023	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2024	30-09-2023
1	Revenue from operations	992.75	987.75	2137.64	1984.16	516.25	350.62	1076.07	700.47
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items) (Refer note b below)	(65.44)	9.25	(33.21)	(83.91)	(34.29)	(10.44)	(38.14)	(54.01)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items) (Refer note b below)	(65.44)	9.25	(33.21)	(83.91)	(34.29)	(10.44)	(38.14)	(54.01)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items) (Refer note b below)	(31.26)	26.05	(7.37)	(37.92)	(7.87)	13.73	(10.61)	(14.25)
5	Total comprehensive income for the period	14.13	26.26	38.25	(37.49)	37.46	13.87	34.90	(13.95)
6	Equity Share Capital	79.06	79.06	79.06	79.06	79.06	79.06	79.06	79.06
7	Earnings Per Share (of Rs. 5/- each) (Not annualised) (for continuing and discontinued operations) (Rs.) -								
	1. Basic:	(1.95)	1.65	(0.47)	(2.40)	(0.50)	0.87	(0.67)	(0.90)
	2. Diluted:	(1.95)	1.65	(0.47)	(2.40)	(0.50)	0.87	(0.67)	(0.90)

Notes:

Place: Chennai

Date: 5th November 2024

- a) The above is an extract of the detailed format of quarter and half year ended unaudited financial results filed with stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended). The full format of the guarter and half year ended unaudited financial results are available on the stock exchange websites www.bseindia.com and www.nseindia.com and on our website www.chemplastsanmar.com.
- b) Exceptional and/or Extraordinary items are adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013.
- c) Other Equity as per consolidated and standalone financials (excluding revaluation reserve) as at 31st March 2024 was Rs. 110.78 Crores and Rs. 2677.56 Crores respectively.

For and on behalf of the Board Chemplast Sanmar Limited

Ramkumar Shankar

New Delhi

Managing Director Chairman DIN: 00018391 DIN: 00007875

Vijay Sankar

financialexp.epapr.in



भाजपा झारखंड के खनिज संसाधनों को लूटना चाहती है: खरगे

रांची, (भाषा)। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की झारखंड के लोगों का कल्याण सुनिश्चित करने की कोई मंशा नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा झारखंड के कोयला और अन्य खनिज संसाधनों को लूटने के इरादे से राज्य में सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रही है। मांड में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए खरगे ने दावा किया कि चुनावी राज्य झारखंड में जुटे भाजपा नेताओं की संख्या उम्मीदवारों की संख्या से ज्यादा है , जो दर्शाता है कि पार्टी एक आदिवासी मुख्यमंत्री के हाथों से सत्ता छीनना चाहती है। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को झठों के सरदार भी करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया. भाजपा की नजर झारखंड के काले सोने (कोयला) पर है और वह राज्य के खनिज संसाधनों को लूटना चाहती है। लोगों का कल्याण उनकी मंशा नहीं है। खरगे ने सवाल किया, भाजपा घुसपैठ की बात करती है, तो केंद्र और असम में उसकी सरकारें अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर सकर्ती? उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी झुठों के सरदार है। उन्होंने

वगीकृत विज्ञापन

Change of Name

I, Krishana W/o Om Prakash

Panwar R/o C-96 DDA Flats

Group-1, Hastsal, Uttam

Nagar Delhi-110059 have

changed my name to Krishana

I, Om Prakash Panwar S/o Sh.

Duli Chnad Panwar R/o C-96

DDA Flats Group-1, Hastsal,

Uttam Nagar Delhi-110059

do hereby declare that my

correct name is Om Prakash

Panwar but to inadvertently

my name is mentioned as Om

Prakash Panwar, Om Prakash

Panwar Nishant, O.P. Panwar

& Om Nishant. However my

actual name is Om Prakash

Summons For Settlement

of Issues

(Order V, Rules 1 and 5 of

the Code of Civil

Procedures)

In The Court of

h. Vikas Madaan, Civi

Judge-01, (West), Room

No. 118, Tis Hazari Courts,

CNR-DLWT030010282024

Union Bank of India

Versus

Mujeeb Ahmed

Mujeeb Ahmed, WZ-266

instituted a suit against you

for Possession by way of

ejectment and recovery of

Rs.202986.38, you are

hereby summoned to file a

written statement within 30

days of the service of the

present summons and to

appear in this court in person.

or by a pleader duly

instructed, and able to answer

all material questions relating

to the suit, or who shall be

accompanied by some

persons able to answer al

such questions, on the 04th

day of December, 2024 at

10:00 o'clock in the morning

to answer the claim; and

further you are hereby

directed to produce on the

said all documents in your

possession or power upon

which you base your defence

or claim for set-off or

counter-claim, and where you

rely on any other document

whether in your possession or

power or not, as evidence in

support of your defence or

claim for set-off, or counter

claim you shall enter such

documents in a list to be

annexed to the written

Take notice that in default o

your appearance on the day

before mentioned, the sui

will be heard and determined

Given under my hand and

seal of the Court today i.e. on

Tis Hazari Courts, Delhi.

Civil Judge (West)

Sd

statement.

in your absence.

15.10.2024.

Seal

Madipur, Delhi-110026.

Mobile No. 9599307112.

Whereas Plaintiff

Delhi-110054.

CS SCJ-614/2024

Panwar.

C-36081

C-36081

Panwar permanently.



कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे चुनावी रैली को संबोधित (एएनआई) करते हुए।

युवाओं को दो करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन रोजगार कहां है? उनसे सावधान रहें, जो केवल लूट में लिप्त रहेंगे। खरगे ने आरोप लगाया कि भाजपा राज्य में सत्ता छीनना चाहती है, लेकिन कोई भी हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटाने की हिम्मत किया कि सोरेन एक बार फिर झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र की अमीरों के कल्याण के लिए काम करती है। उन्होंने कहा, पांच फीसदी अमीर लोगों के पास देश की 60 फीसदी संपत्ति है, जबिक 50 फीसदी गरीब नागरिकों के पास सिर्फ तीन फीसदी संपत्ति है... प्रधानमंत्री मोदी ने अमीरों के 16 लाख करोड़ रुपये माफ कर दिए, लेकिन गरीबों किसानों और दलितों को कोई राहत नहीं दे सके। खरगे ने कहा कि भाजपा को केंद्र में सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने झारखंड के लोगों के कल्याण के लिए राज्य को 1.36 लाख करोड रुपये के कोयला बकाये का तत्काल भुगतान करने की मांग की। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए मतदान दो चरणों में 13 और 20 नवंबर को होगा।



स्चना बी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 एवं अन्य लागू प्रावधान, यदि को ; के अनुसरण में एतदृद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की अगली बोर्ड बैठक मंगलवार, 1 वम्बर, 2024 को आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य बातों के साथ—साथ 30 सितम्बर, 2024 को समा सरी तिमाही एवं छमाही के कंपनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं अनुमोदन किय गएगा। कथित सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.shardamotor.com पर भी उपलब्ध है और इसे स्टॉव

नितिन विश्नो

देनांक: ५ नवम्बर, २०२४ थानः नई दिल्ली

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

पारा 82 रीआरगीरी देखिए

मेरे रामक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **राजेश** पुत्र **पूरन सिं**ह निवासी म.नं. 561, रादरपुर, खजुर कॉलोनी, रोक्टर-45, नोएका, यू.मी. ने case FIR No. 452/2016 U/s 279/337/338 IPC, 제네 쇼에미니션 दिल्ली के अपीन दण्डनीय अगराप किया है (या संदेह है कि उसने किया हैं श्रीर करा पर जारी किये गये गिरफ्तारी के गारंट को यह लिखकर लीटा दिया गया है कि एक्त राजेश मिल नहीं रहा है और मुझे रामाधानप्रद एग से दर्शित कर दिया गया है कि लक्त **राजेश** फलर हो गया है (या लक्त वारंट की तामीह रो बचने के लिए अपने आप को छिमा रहा है।)

ફવાનિષ્ટ ફરાજે ફાલ સંદુર્ગાયમાં છી जાતી ફૈ જિ case FIR No. 452/2016 U/s 279/337/338 IPC, धाना करवाणगुरी, दिख्ली के एक्त अभियुक्त **राजेश** से अपेक्षा की जाती है कि कड़ इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) पक्त परिवाद / मुकदमा का उत्तर देने के लिए दिनां**क 18.12.2024** को य तससे पूर्व हाजिस हो |

આવેજ્ઞાનુસાર सुओ पीति अवनाल मुख्य महानगर दण्डाधिकारी पूर्वी जिला, कमरानं 28 कड़कड़ज़ुमा कोर्ट, दिल्ली

जेएमएकसी, कमरा नबर 268

तीश इजारी कोर्ट, दिल्ली

DP/14562/ED/2024(Court Matter)

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

ધારા 82 Cr.P.C. દેखિए

मेरे रामश परिवाद किया गया है कि अमियुक्त अजय, पुत्र विष्णु, पता बी-1, 345, जेजे कॉलोनी, रपुबीर नगर, दिल्ली ने FIR No. 49/2024, U/s: 498(A)/406/34 IPC, પુનિસ થાના સ્થાતા, દિલ્લી के अभीन दक्षनीय अपराध किया है (या रादेह है कि उराने किया है) और उर पर जारी किये गए गिरमतारी के वास्त को यह लिख कर लीटा दिया गया है कि उक्त अजय मिल नहीं रहा है। और मुझे रामाधानप्रय रूप में दर्शित कर दिया गया है कि **अजय** फरार हो गया है(या उकत वास्ट कि तामील से सबरे के लिए अपने आप को छिया रहा हैं)।

इसलिए इसके द्वारा लक्ष्मीषणा की जाती है कि HR No. 49/2024, U/s: 498(A)/406/34 IPC, पुलिस व्याना स्थाला, दिल्ली के अभियुक्त अज़ब्द से अपेद्या की जाती है कि वह इस न्यायालय के समद्र (या मेरे रामदा) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 05.12.2024 या इससी पहले हाजिर हो । આવેશાનુવાલ सुश्री सुकृति सिंह

DP/14681/WD/2024

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली सद्धोधणा

(धारा ह्य सीआरमीसी बेब्बिए)

मेरे रामक परिचाद किया गया है कि धामियुक्त ब**मली राजी उन्हें राजोजी पुनी सी** एको निर्मेद पता पत्नेट नं. वी. 1702, लाइट पाको रोक्टर 78, नोएडा, उत्तर प्रदेश ने प्रथम सचना रिपोर्ट संस्था 297 / 2018 भारा 354 / 508 / 509 भा.द.स. के वहच थोनाः कोटला मुबारकपुर, दिल्ली के अधीन देवनीय अवराध किया है (या रादेड है कि जराने किया है) और जरा पर जारी किए गए गिराखारी के बारट को यह लिए कर लोटा दिया गया है कि प्रका बबाली चानी पर्छ चालोगी गिल नहीं रही है और मुझे रामाधान पद रूप में दक्षित कर दिया गया है कि उक्त बबली राजी उन्हें राजीनी फरार हो गयी है (या तका वार्रद की तायील से वचने के लिए अपने आफारे थिया रही हैं)। अब इसके हारा उद्योषणा की जाती है कि प्र**यम सूचना रिपोर्ट** संख्या 297/2018 भारा 354/508/509 भा.य.स. के तका थाना कोटला मुबारकपुर, दिल्ली के उक्त बबली रानी उर्फ सलोगी से अंगेशा की जाती है कि दे हरा न्यायासय के राजदा (या गेरे राजध) जक्त परिवाद का जक्तर देने के लिए दिनाक व्यादेशानुसार 24 12 2024 को या इससे पहले हाजिस हो। अनग रईरा व्यान

-यायिक दंखाधिकारी (प्रथम श्रेणी) महिला कोर्ट-01, कमरा गं.506 दक्षिण-पूर्व जिला साकेत कोर्ट कॉम्पलेक्स, गई दिल्ली

DP/14462/SD/2024

DP/14271/DW/2024

(Court Matter)

अभियुक्त की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 Cr.P.C. देखिए गेरे रागदा परिवाद किया गया है कि **काजोल पत्नीः आश्रु, पताः** शुग्गी नं.

29. टी. कैम्प काली बरती, कृष्णा कॉलोनी, ए और बी ब्लॉक, उत्तर नगर, ાર્ટ વિલ્લો ને SC No. 139/2023, U/s 135 Indian Electricity Act થાના उत्तम नगर, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या रांदेड है कि जराने किया है) और जरा पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारण्ट को वड लिख कर लीटा दिया गया है कि चका अभियुक्ता **काजील** मिल नहीं रही है और गुड़ो समाधानपद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि तकत अभियुक्त कार्जील फरार हो गयी है (या तकत वारण्ट की तामील से करने के लिए अपने आप को छिपा रही हैं)। इसलिए इसके द्वारा उदयोषणा की जाती है কি SC No. 139/2023, U/s 135 Indian Electricity Act খাল: কলম नगर, दिल्ही के उका अभियुक्त काजील से अपेक्ष की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेर्र समक्ष) उत्तत परिवाद का उत्तर देने के लिए चिनांक **13.02.2025** को या इरारो पडले डाजिर हो I आदेशानुसार श्री विनोद क्मार मीणा

अति जिलाऔर सञ्जन्माकवीरा (द –प) विशेष कोर्ट (बिजजी) हारका कोर्ट, नई दिल्ली

गुजरात में शराब से लदी एसयूवी पकड़ने के प्रयास में पुलिसकर्मी की मौत

स्रेन्द्रनगर जिले में मंगलवार तडके कथित रूप से शराब से भरे एक संदिग्ध वाहन को रोकने की कोशिश करते समय 50 वर्षीय एक पलिसकर्मी की मौत हो गई। एक अधिकारी ने बताया कि यह दुर्घटना दसादा-पाटडी मार्ग पर कथाडा गांव के पास देर रात करीब बताया गया कि एक गप्त सचना के आधार पर कार्वाई करते हुए राज्य निगरानी प्रकोष्ठ (एसएमसी) से सम्बद्ध उपनिरीक्षक जे एम पठान ने कथित तौर पर शराब की तस्करी के लिए इस्तेमाल की जा रही एक एसयुवी को रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पठान और एसएमसी के अन्य सदस्य सडक को अवरुद्ध करने के लिए एक मोड़ पर खड़े थे तभी एक संदिग्ध

सुरेंद्रनगर, (भाषा)। गुजरात के एसयूवी उनकी ओर आई। लेकिन एसयुवी और उसके पीछे एक ट्रेलर मोड से निकलने में कामयाब रहे। उन्होंने बताया कि जब अधिकारी ने सामने से आ रही एक अन्य एसयुवी के रास्ते से हटने की कोशिश की तो उसकी हेडलाइट के कारण वह ठीक से देख नहीं सके और ट्रेलर के पिछले हिस्से से टकरा गए। एसएमसी ने एक विज्ञप्ति में बताया कि टक्कर के कारण पठान के सिर में गंभीर चोटें आईं और उन्हें दसाडा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। इसमें कहा गया है गया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि दसाडा पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है तथा आगे की जांच जारी है।

Himachal Pradesh Jal Shakti Department Notice Inviting E-Tenders

Executive Engineer, Jal Shakti Division, Dharamshala on behalf of Governor of Himachal Pradesh from approved eligible contractors Firms enlisted in the appropriate class with HP Jal Shakti Vibhag for the following work through online tendering process:-

Sn. 1, Name of work: Drilling, Lowering and Installation of Hand Pumps in Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra H.P (Under CRF) Estimated cost: Rs 1846900.00, EMD: Rs.36940.00, Cost of tender form: 400/-. Time limit: 3 Months. Sn. 2. Name of work: Providing undrground storage tank 1, 00,000 ltrs capacity for firefighting Panne Room along with Pumping Machinery, laying pipes etc. in zonal Hosptial Dharamshala Distt. Kangra (H.P.) (Sub Head:- Construction of Pump House) (Deposit Work) Estimated cost: Rs 526769 00. EMD: Rs.10540.00, Cost of tender form: 250/-, Time limit: 3

date for the submission of e-tender through online mode14.11.2024 at 11:00 A.M. Others terms and conditions ,tender locuments of tender please refer website: https://hptenders.gov.in **Executive Engineer**

RO No. 3076/2024-2025 Jal Shakti Division, Dharamshala

Office of The Superinetending Engineer Public Work Department, Bilaspur Circle Bilaspur, Chhattisgarh निविदा निरस्तीकरण सूचना

इस कार्यालय के निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 247 दिनांक 24.10.2024 को अपरिहार्य कारणवश निरस्त किया जाता है

> अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग

जी—242503595 / 6

बिलासपुर मण्डल, बिलासपुर

गारत रारकार रेल मंत्रालय (रेजवे बोटे)

<u>सुद्धिपत्र संख्या २</u> परमञ्जू देखर (एम मी टी)

परीक्षण और क्षेत्रीशिंग, भारतीय रेतर्च क्षेत्रारियों के प्रशिक्षण और उ नारटी एएगरी के साम, के लिए निजाक 87 रर 2024 को नन होने नाली . विश्व निविद्य बंद होने की निका विभि १४:11:2024 (गुरुवार) से 28:11:2024 (भंगतवार)

जिल्हेज 2. निविदा के अन्य रागी नियम एवं कर्ते रामान क्षेत्री। इ.स. १६ विद्रासक अध्यक्षक्रक

(रेलने नोर्ज)

कुर्व निर्मित कुरण

क्षा के कहाति भी और में लेखा करियंदा/तः, क्षाव्य देव उर्जनक कार्यकार, कार देवते. को विकोर क्षाव किया कर्त से किए हैं- विकेश्य असमित को कार्य है।

महात्र, आठा, सरकार, साथ, काराव, आर., साथ, साथ, साथ में हुँक राजेन राज्यित सुर्वेद्धार्थ के कारावर और स्थितिक स्थान में अनुसार में आज, साथ, साथ, साथ, साथ और आपन में साथ साहतिय के साथका के स्थित में हुंक सुर्वान की मोदिका मेंद्रीयन स्थानका है जिसका कर againe area (4: 0,00,00,0000) print with To 4,31,000

Parker agent all 1984 | 20.11.2001 कुरू निर्मेश के के कि विकास का अध्यक्त का करना है का दूरी कियार

ल पं: क. कम्/का/विश्व सा-अ कम् ४/अ-अ

Refer Williams प्रात्सको की जैना में सावकार के साथा

अभियुक्त व्यक्ति की द्वाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 CrPC देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त दानिका पुत्र मोहम्मद जमील निवासी: ई-1/7, सॅट्रल बॅठक, सीलमपुर, दिल्ली, ने FIR No. 35544/ 2021, U/S 379/411 IPC, પુલિસ સ્ટેશન નંદનગરી, હત્તર-પૂર્વ જિલા, **दिल्ली.** के अधीन दंजनीय अपराध किया है (या रांदेड है कि जराने किया हैं) और तस पर जारी किया गया गिरफ्तारी के गरंद को कड़ लिख कर लीटा दिया गया है कि उक्त अभिकृतत दानिश मिल नही रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि एक्त अभियुक्त दानिश करार हो गया है (या उक्त वार्टर की तागील से बचने के लिए अपने आप को छिपा

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि FIR No. 35544/2021, U/S 3/9/411 IPC, पुलिस स्टेशन नदनगरी, उत्तर-पूर्व जिला, दिल्ली, के एक्त अभियुक्त दानिश से अपेक्षा की जाती है कि वे इस न्यायालय के रागदा (या गेरे रागदा) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 13.12.2024 को या इसरो पडले डाज़िर हो l आदेशानुसार सुबी दीपादी राणा

न्यायिक गजिरहेट प्रथम श्रेणी-03, DP/1433b/NE/2024 कगरा नंग 19. प्रथम चल. शाहदरा जिला. कदकददुमा कोर्ट, दिल्ली (Court Matter)

PROCLAMATION REQUIRING ATTENDANCE OF DEFENDANT (ORDER V. RULE 20 of the Code of Civil Procedure) IN THE COURT OF SH. VINOD YADAV, LD. DISTRICT JUDGE (COMMERCIAL, COURT-02), NORTH-WEST DISTRICT, DELHI, ROOM NO. 316, ROHINI COURT, DELHI.

CS(COMM.) NO. 163/22 INDÍAN OVERSEAS BANK

...Plaintiff

(1) Mr. Pardeep S/o Naresh Kumar R/o H. No. 380, Khasra No. 1182, Block B. Prer Nagar-2, Kirari, Suleman Nagar, Delhi-110086. (2) Sh. Manish Kumar (Guarantor) Sio Naresh Kumar 5-235, Saniav Colonx, Gall No

10. Narela, Delhi-110086. WHI KI AS you, in view of the reports stready received, cannot be served cannot be served in ordinary way. It is hereby notified that if you shall not detend the case on the

27° Day of November, 2024 the day fixed for the final disposal, it will be heard and delermined ex-garte. Given under my hand and the seal of the court on this 26" Day of October, 2024.

District Judge (Commerical Court)-62



North-West, Rohini Delhi

जोशी का सौर परियोजनाओं की दक्षता बढ़ाने, भंडारण समाधान विकसित करने का आह्वान

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने सौर परियोजनाओं और ऊर्जा भंडारण समाधान विकसित करने पर मंगलवार को जोर दिया। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के एक सम्मेलन में जोशी ने हितधारकों से स्मार्ट प्रौद्योगिकियों के साथ जुडाव पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया और कहा कि सौर उद्योग का विकास तेजी से होगा। जोशी 120 देशों के इस समूह के अध्यक्ष भी हैं। मंत्री ने कहा, मैं आपको पांच कारण बताता हूं कि इस तरह के मंच क्यों महत्वपूर्ण हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इससे व्यवसाय के सर्वश्रेष्ठ लोग बढती दक्षता, लागत में कमी, ऊर्जा भंडारण समाधान, प्रौद्योगिकियों के साथ

मोटर दुर्घटना अधिकरण बुलन्दशहर समन वास्ते करारबाद तनकीह तलब आर्डर–5, कायदा–1 व 5 न्यायालय MACT (जनपद न्यायाधीश महोदय, बुलन्दशहर।

M.A.C. No. 416 सन् 2022 कु. निशि शर्मा उम्र करीब 20 वर्ष पुत्री स्व. श्री विपिन कुमार शर्मा दीपक कुमार शर्मा उम्र करीब 19 वर्ष पुत्र स्व. श्री विपिन कुमार शर्मा निवासीगण ग्राम तहसील–शिकारपर बलन्दशहर

. हाल निवासी–गोकुल विहार, गली नं. परगना व तहसील–खुर्जा, जिला ...याचीगण बुलन्दशहर। बनाम

उधम सिंह पुत्र चन्द्रपाल सिंह, मौहल्ला–शिवपरी, कस्बा १हसील व जिला–अलीगढ, हात तहसील–शिकारपर. जिला-

स्वामी दुर्घटना कारित बस सं UP 81BT-8838) टाटा ए.आई.जी. जनरल इंश्योरेन्र

कम्पनी लि., रजिस्टर्ड ऑफिस लाटस टावर, कम्यूनिटी सेन्टर, न्यू फ्रेन्ट्स कालोनी, नई दिल्ली—110025 द्वारा लीगल प्रबन्धक (नॉर्थ जोन) पॉलिसी (बीमाकत सं.—01635435930000 दुर्घटना कारित बस सं. UP-81BT-3.बोबी गिरि पुत्र धनी गिरि निवासी

ग्राम-बाशाहपुर पंचगाई, शिकारपुर, जिला–बुलन्दशहर। (चालक दुर्घटना कारित बस सं. UP: 31BT-8838)

ने आपके नाम एक नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा हक्म होता है कि बतारीख 06 01 2025 बवक्त 10 बजे दिन के असालतन या मार्फत वकील के जे मकदमें के हालात के करार वाकड़ किया गया हो और कुछ अहम मुतालिका मुकदमा का दे सके हाजिर हो और जवाबदेही दावा करें और लाजिम है कि उसी रोज अपने दस्तावेज पेश करें जिस पर आप अपनी जवाबदेही के दस्तखत करना चाहते हो। बवक्त मेरे बतारीख माह सन् 2024 ई. को जारी किया गया।

हस्ताक्षर न्यायालय व मोहर मोटर दुर्घटना अधिकरण बुलन्दशहर

Proclamation Requiring Attendance of Defendant (Order 5, Rule 20 of the **Code of Civil Procedure**)

In The Court of Sh. Sanjay Jindal, District Judge (Commercial Court)-04. West District Room No. 202, 2nd Floor, Extension Block, Tis Hazari Courts, Delhi. Suit No. CS (Comm)/

521/2024 Chavan GuptaPlaintiff V/s.

M/S Shree Rudra Confectionery Pvt. Ltd.Defendant

Defendants M/s Shree Rudra Confectionery Pvt. Ltd. Through

Director/Manager/Principal Officer 17/1, Main Rohtak Road, Near Bank of Baroda, Nangloi, New Delhi-110041 Mob-9711771703 9811977731 Emailshreerudra2013@gmail.com shreerudra.acc@gmail.com Also At-A-95, DSIDC Narela Industrial Area,

Named Whereas you

The Defendant Above

Narela, Delhi-110040.

intentionally evading service of summons it is hereby notified that if you shall not defend the case on the **11.12.2024** the day fixed for the final disposal, it will be heard and determined exnarte. Given under my hand and the

seal of the court, this 29.10.2024. Sd/

District Judge (Commercial Court)-04, West District Extension Block, Tis Hazari Courts, Delhi.

जुड़ाव, आर्थिक वृद्धि और रोजगार सुजन पर चर्चा के लिए एकसाथ आते हैं। यह सत्र अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की 7वीं महासभा के साथ आयोजित किया गया। इसमें अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। जोशी ने इस क्षेत्र में भारत द्वारा की प्रगति का हवाला देते हए कहा कि सौर उद्योग का विकास सौर प्रणालियों के विनिर्माण. स्थापना तथा रखरखाव में रोजगार सजित कर आर्थिक वृद्धि को बढावा देता है। नवीकरणीय (एमएनआरई) ने कहा. मैं आपको भारत की क्रांतिकारी प्रधानमंत्री सुर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उदाहरण देता हूं। इस योजना से विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष तौर पर करीब 17 लाख नौकरियों का सृजन होने की उम्मीद है। भारत 3.25

बहुर्ब चल**ँ** जीवन वास बिल्डिंग संसद मा विल्लीन राहमाओं से बसाना ऋज न

लाख से अधिक युवाओं को छतों

ાની સમિનિયમ, 1993 કરી મારા 19(4) કે રા करण प्रमुखी न्यायाधिकतण (प्रक्रिक વનાવતી. 1988ે કો નિવન 12 જવે 18 છે તહ i.y. el. 97/2024 नेशनल बैक

की। जिनम करूर होन नेवारों व ऑनिनाइपर कुछ लिंदोज् ६४ ६४, हरगोरिन युन्हरेन राजपुर खुने नार्टेका प्रकारपुर देशा रोड बीएराएव कार्यरा है তালক বিভালী 110060

ત્તિના ગીર પૈલે અનહાત શાળો અં વસૂની હેતું ! દર આદિત દિવસ કે તથા હાલદિ આવદિવસમ দৰ্ভক কৰাৰ সৈতে মহামা আৰু দুজা টা। চীকাল্যসম্পৰ্কৰ কাল্যসমাহিলালাৰ কৰাৰ પ્રથમો પ્રિયાન 05 02 2025 કરે પૂર્વા, 11,00 છ નીંગ નવાવાડિકારળ કરે શકરા તાલીકાત હોવે ન

লে বঁকি যবি আন ক্ৰকেল চিগি ক'ছ

तनी अभिकास/कारी सिंगको वेबेक्स क्यों के

बारतीय पीतासीन अधिकारी / रहित य की जाने गरी गुलबई के गागरों की अगा रेक के किए "मीटिंग आईटी" और "गासकरी IKT के ऑक्सिकाल बेटिस अमीट dit.gov.in व निकास की सूत्री ने प्रदर्शित किया जाएगा | ીની ભી આગલાથી કહ્યું પહેલોનેટ્સ ફાર સંવંધિત અધિવારી સે પ્રતિ **23748478** પ ਕਿਵੇਂ ਸੰਦੇ ਚਵਜ਼ੇ ਹੈ।

प्रस्कारक और इस र अब्दुल, १९७६ को दिया गया। अधिकाण के आदेशपुरूप सनुगाय समिकारी, दीसारटी 11, दिल्ली



अल्पकालीन ई-निविदा सूचना क्र. 1, ई-निविदा सं. 30 / 2024 –25 / EDC ETAH: ई–निविदा का विवरणः विद्युत वितरण मण्डल, एटा के अधीन, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, एटा के अन्तर्गत बिजनेस प्लान 2024-(पार्ट-02) मद में सेमी टन की आधार पर वितरण परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि / लाइनों का सुदृढ़ीकरण / अन्य कार्य।

क्र. २, ई–निविदा सं. 31 / 2024 −25 / EDC ETAH, ई–निविदा का विवरणः विद्युत वितरण मण्डल, एटा के अधीन, विद्युत वितरण खण्ड, प्रथम, एटा के अन्तर्गत बिजनेस 2024-25 (पार्ट-02) मद मे सेमी टर्न की आधार पर वितरप परिवर्तक की क्षमतावृद्धि / फीडर विभक्तिकरण / लाइनों का

सुदृढ़ीकरण/अन्य कार्य। ई–टेन्डर वेबसाइट निविदाकार द्वारा निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि 21.11.2024 को अपरान्ह 12.00 बजे तक एवं निविदा का प्रथम भाग खोलने की तिथि 21.11 2024 को अपरान्ह 15.00 बजे निविदा से सम्बन्धित क्रय राशि एवं धरोहर राशि जमा करने/ संशोधन / तिथि विस्तार की सूचना एवं समस्त जानकारी उ. प्र. शासन की आधिकारिक ई—टैंडरिंग साइट www etender.up.nic.in एवं www .dvvnl.org पर उपलब्ध करायी जायेगी। अद्योहस्ताक्षरी को एक अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है राष्ट्रहित में बिजली बचाएं, (पी. के. सिंह) अधीक्षण अभियंता, विद्युत वितरण मण्डल–एटा पत्रांकः ४३०८ / विविमं(ए) / ई-

दी जाती है कि किसी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया से पहले विज्ञापन में प्रकाशित किसी उत्पाद या सेवा के बारे में पुरी तरह उपयुक्त जांच-पडताल कर लें। यह समाचार पत्र उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता आदि के विवरण के बारे में विज्ञापनदाता द्वारा किए गए दावे या उल्लेख की पृष्टि या समर्थन नहीं करता। समाचार पत्र उपरोक्त विज्ञापनों के बारे में किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

निविदा प्रकाशन / 05.11.2024

वैधानिक सूचनाः पाठकों को सलाह

पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने का प्रशिक्षण भी देगा। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण में स्थापना तथा रखरखाव शामिल होगा. जिससे युवा सौर उद्योग में अपना करियर बना सकेंगे और अपने समुदायों में उद्यमशीलता को बढावा दे सकेंगे। मंत्री ने साथ ही कहा, सौर ऊर्जा के भविष्य पर चर्चा करते समय हमें स्मार्ट दृष्टिकोण को ध्यान में रखना होगा। हमें न केवल दक्षता को अधिकतम करना होगा. बल्कि अधिक टिकाऊ ऊर्जा परिवेश बनाने में भी योगदान देना होगा

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड

<u>प्रेस विज्ञप्ति</u> सर्वसाधारण सचित किया जाता है कि विद्युत गाजियाबाद के अधीन 220 के वी. उपकेन्द्र पावी लोनी पर नय 63 एमवीए परिवर्तक ऊर्जीकृत करने हेतु 145 के.वी. हाईब्रिड पास मॉडयुल की स्थापना क कराया जाना आवश्यक है, जिसके 220 के.वी. उपकेन्द्र गाजियाबाद से निर्गत 33 के.वी ट्रोनिका सिटी, पावी, नाईपुरा डी.एल.एफ. रूपनग बलरामनगर—1. बलरामनगर—2 लालबाग. आवास सोर्सवेल, मण्डोला एवं पोषको एवं 132 के.वी. उपकेन्द्र टीला मोड से निर्गत 33 के.वी सिकरानी (बेहटा), इन्द्रप्रथ. रूपनगर. ऑक्सीहॉम भारत सिटी. कोयला इन्कलेव चिरोड़ी, फुलेरा एवं पोषको की दिनांक 08.11.2024 को प्रातः 11.00 से प्रातः 11.4: बजे तक एवं दिनांक 2024 को प्रातः 10.00 बजे र प्रातः 12.00 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। सभी सं सहयोग की अपेक्षा है। असुविधा के लिये खेद है। (राष्ट्रहित में बिजली बचायें।)

Summons For Settlement of Issues (Order V, Rules 1 and 5 of the Code of Civil **Procedures**) In The Court of Vikas Madaan CivilJudge-01, (West) Room No. 118, Tis Hazari

(राहुल) अधिशासी अभियन्ता

विद्युत पारेषण खण्ड प्रथम उ.प्र

पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन

लि., 132 के.वी. उपकेन्द्र लाल

पत्रांकः १०३९ / विपाख—प्र / गा

बाद / दिनांक 05.11.2024

कुओं, गाजियाबाद

Courts, Delhi-110054. CNR-DLWT030010252024 CS SCJ-611/2024 **Union Bank of India** Versus

Palak Tandon

Palak Tandon, WZ-430-B. Madipur, Delhi-110026. Also At: H. No. BG-65, 294 C, Pashcim Vihar, New Delhi-110053. Mobile No. 9811326733.

Whereas Plaintiff has instituted a suit against you for Possession by way of ejectment and recovery of Rs. 198889.08, you are hereby summoned to file a written statement within 30 days of the service of the present summons and to appear in this court in person, or by a pleader duly instructed, and able to answer all material questions relating to the suit or who shall be accompanied by some persons able to answer all such questions, on the 04th day of December. 2024 at 10:00 o'clock in the morning, to answer the claim; and further you are hereby directed to produce on the said all documents in your possession or power upon which you base your defence or claim for set-off or counter-claim, and where you rely on any other document whether in your possession or power or not, as evidence in support of your defence or claim for set-off, or counterclaim you shall enter such documents in a list to be annexed to the written statement.

Take notice that in default of your appearance on the day before mentioned, the suit will be heard and determined in your absence.

seal of the Court today i.e. on 15.10.2024.

Given under my hand and

Civil Judge (West). Tis Hazari Courts, Delhi.